

सौ चालो पाठशाला जईये

नियमावली

- यह योजना मुंबई (चर्चगेट से विरार, सी.एस.टी./वी.टी से कल्याण, भिवंडी व पनवेल), सुरत, बरोदा, अहमदाबाद और जुनागढ संघ संचालित पाठशालाओ के लिये है।
- यह योजना में समस्त श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन संघो (तपागच्छ, अचलगच्छ, खतरगच्छ, पईचंदगच्छ विगेरे) जुड सकते है।
- इस योजना में 8 से 48 वर्ष के सभी भाई व बहने भाग ले सकते है।
- ये योजना **२ जुलाई २०१९ से २९ फरवरी २०२०** तक रहेगी। (**अंदाजित ८ महीने**)
- ८ महिने के दरम्यान योजना में भाग लेने वाले भाईयो व बहनोको कम से कम ६८ नयी गाथा और १२५ दिवस की हाजरी के साथ पूर्ण करनी है।
- आपके पाठशाला की हाजरी पाठशाला मे उपस्थित शिक्षक/शिक्षिका के पास हस्ताक्षर करवाना जरुरी है, जिसकी जवाबदारी योजना मे भाग लेने वाले भाईयो, बहनो व संघ के शिक्षक, शिक्षिकाओ की रहेगी।
- इस योजना में भाग लेने वाले भाईयो व बहनोको हर माह के अंत में, उस महिने में कंठस्थ की गयी कुल नयी गाथा व उस माह की हाजरी लिखकर, पुस्तक के नीचे की जगह में संघ अथवा पाठशाला का स्टाम्प व पाठशाला के शिक्षक/शिक्षिका के पास जांच करवा कर उनके हस्ताक्षर करवाने है।
- जो महिना पूर्ण हो चुका है उस महिने की हाजरी व नयी की हुयी गाथा का हाजरीपत्रक जमा करने से पहले अगले महिने १ से १० तारीख के बीच दी गयी लिंक पर अपलोड करना है (लिंक आपको प्राप्त स्वीकृत/Confirmation इमेल पर दी गयी है)
- बेस्ट विद्यार्थी का पुरस्कार नयी की हुयी गाथा की संख्या व कुल हाजरी की संख्या पर से गिनी जायेगी।

❖ नयी गाथा किस तरह से गिनना इसकी जानकारी

- नये सभी सूत्रो के लिये **१ गाथा= १ गाथा** (अतिचार सिवाय)
- अतिचार के लिये
 - 1 स्थूल, व्रत=4 गाथा (नयी गाथाकी गिनती)
 - 1 स्थूल, व्रत=2 गाथा (पुनरावर्तनकी गिनती)
- **शक्रस्तव-४० गाथा, पंच सूत्र(1st सूत्र)- ४० गाथा, तत्वार्थ सूत्र(संपूर्ण)-१५० गाथा**
- नवा स्तुति स्तवन सज्जाय के लिये **४ गाथा=१ गाथा**
- पुनरावर्तन (पहेले किये हुये सूत्र)
 - दो प्रतिक्रमण तक के सभी सूत्रो के लिये **१० सूत्र= १ गाथा**
 - दो प्रतिक्रमण से ऊपर के सूत्रो के लिये व वंदितु सूत्र के लिये **१० गाथा=१ गाथा**

- पहले की हुयी स्तुति, स्तवन व सज्जाय के पुनरावर्तन के लिये नयी गाथा के रूप में गिनी नही जाएगी।

❖ पाठशाला में हाजरी कीस तरह से गिनी जायेगी इसकी जानकारी

- एक हाजरी गिनने के लिये पाठशाला में कम से कम ३० मिनट की उपस्थिति जरूरी रहेगी।
- कुछ विशेष कारणवश या परिक्षा दरम्यान कम से कम १५ मिनट की हाजरी अनिवार्य रहेगी ।
- चौदश व पर्युषण पर्व दरम्यान संघ में किये हुये प्रतिक्रमण की उस दिन की हाजरी गिनी जायेगी (जिसके हस्ताक्षर पाठशाला के शिक्षक /शिक्षिका के पास में ले सकते है)
- आपके संघ में चल रहे संस्कार वाटिका, शिक्षण संघ व Learn & Turn में आपकी हाजरी उस दिन की ? हाजरी के बराबर गिनी जायेगी ।
- इस योजना के दरम्यान अगर कोई उपधान करने अथवा म.सा.के पास रहने को जा रहे हो तो **(एक साथ कम से कम ५ दिवस)** ५ दिवस=३ हाजरी आपको मिलेगी.(रुके हुये दिनों की ६०% हाजरी मिलेगी)
- अगर आप अपने स्वजन के वहां पर हो या किसी कारणवश बाहरगांव हो या किसी अन्य जगह पर शिफ्ट हुये हो (मुंबई, अहमदाबाद,सुरत,बरोदा,जुनागढ इनमें से किसी शहर में) तो आप वहां के नजदीकी पाठशाला में जहां यह योजना चालु है वहां जाकर शिक्षक/शिक्षिका बहेन के हस्ताक्षर व पत्र लेकर वहां की पाठशाला में जुड सकते है।
- इसके अलावा किसी भी प्रकार की हाजरी नहीं गिनी जायेगी।

❖ पाठशाला के शिक्षक/शिक्षिकाओ को मिलने वाले इनाम किस तरह से गिने जायेंगे.इसकी जानकारी

- २५ पाठशाला के लकी ड्रॉ के लिये कम से कम उस पाठशाला से २० विद्यार्थी इस योजना में जुडे हुये होने चाहिये (इनाम मे मिली हुयी रकम पाठशाला के शिक्षक,शिक्षिका बहनो के बीच बांटी जायेगी)
- जो एक संघ या एक ही क्षेत्र के अंदर चल रही बालक,बालिका, भाईयो,बहनो की अलग अलग समस्त पाठशालाओ की उस संघ की एक ही पाठशाला गिनी जायेगी।

- उपरोक्त नियमोंमें फेरबदल करनेका अधिकार समकित ग्रुपके अधिन रहेगा।